



॥ योग युक्त, रोग मुक्त मानव ॥  
**Kalpamrit**  
*Rejuvenate your life*

**PRODUCT  
GUIDE**



**REXANA**



**Kalpamrit.in**

**+91-9035308471**



#### Product Details:

ReXana is a unique blend of highly stabilized Bioavailable absorbable Bioactive Vitamin, Minerals and Micronutrients formulated, developed and originated in European Union "The Netherlands".

#### Contains :

- Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of skin.
- Zinc contributes to the maintenance of normal bones and also normal skin, hair and nails.
- Additional Complementary Combination of active Micronutrients, including Boron, Potassium chloride, Polyethylene Glycol (PEzG) and Purified water.

**No.1 BEST  
SELLING  
PRODUCT IN  
EUROPE**



#### Recommended Use :

Take 10 drops daily with half glass of water or juice and drink immediately. The recommended daily dosage must not be exceeded.

#### Caution :

If you are pregnant, lactating or taking any medication consult your healthcare practitioner before taking this dietary supplements. Keep out of reach of children. Store in a cool, dry place.

#### Disclaimer :

Dietary supplements should not be used as a substitute for a balanced and varied diet and a healthy way of living.



# Kalpamrit.in

+91-9035308471



## Facts to Know:

ReXana is a unique blend of highly stabilized Vitamin, Minerals and Micronutrients formulated, developed and originated in European Union “The Netherlands”.

ReXana is based on bioavailable synergistic Vitamin and mineral nutrients.

महत्वपूर्ण तथ्य :

रेक्साना अत्यधिक स्थिर विटामिन, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अद्वितीय मिश्रण है जो यूरोपीय संघ “नीदरलैंड” में विकसित हुआ है।

रेक्साना प्रकृति से उपलब्ध विटामिन और खनिज पोषक तत्वों से बना है।



# Kalpamrit.in

## +91-9035308471



### ReXana Drops:

The ReXana formula contains concentrated and highly bio-available / absorbable ingredient Boron, Zinc and Vitamin C. Because of its balanced composition, ReXana has a positive effect on the entire body. It has many effects on the body. It benefits our skeletal (bones) and vascular system (blood vessels), makes muscles stronger and strengthens the nails and hair. Next, ReXana supports the normal functioning of the immune system and healthy formation of connective tissue. ReXana has positive effects on the quality and elasticity of the skin by stimulating collagen production.

The patented formulation is highly bio-available for strong bones, hair, skin and nails. Zinc contributes to the maintenance of normal bones, hair, skin and nails, supports function of the immune system and has a role in the process of cell division. Boron is important as well for the growth and maintenance of bone and for improving wound healing, while Vitamin C is involved in the prevention of immune system deficiencies, cardiovascular disease, prenatal health problems and eye disease.

1 bottle ReXana, 30 ml, when used daily by 1 person, will last up to for > 2 months. ReXana should be stored at room temperature (15-25°C) and should not be exposed to direct sunlight.

रेवसाना ड्रॉप्स :

रेवसाना फॉर्मूला में बोरॉन, जिंक और विटामिन सी जैसे अत्यधिक जैव-उपलब्ध अवशोषक घटक शामिल हैं। इसके संतुलित मिश्रण के कारण, पूरे शरीर पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह हमारे कंकाल तंत्र (हड्डियों) और संवहनी तंत्र (रक्त वाहिकाओं) को लाभान्वित करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और नाखूनों और बालों को मजबूत करता है। इसके बाद, रेवसाना प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कामकाज और संयोजी ऊतक के स्वस्थ गठन को लाभान्वित करता है।

रेवसाना कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर त्वचा की सुन्दरता और लचीलेपन को बढ़ाता है।

पेटेंटयुक्त यह फॉर्मूलेशन मजबूत हड्डियों, बालों, त्वचा और नाखूनों के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। जिंक हड्डियों, बालों, त्वचा और नाखूनों को स्वस्थ रखने में लाभकारी है, प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूत करता है और सेल विभाजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। बोरॉन हड्डी के विकास और रखरखाव के लिए और जख्म भरने में महत्वपूर्ण है, जबकि विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी, हृदय रोग, प्रसवपूर्व स्वास्थ्य समस्याओं और आंखों की बीमारी की रोकथाम में लाभकारी है है।

१ बोतल, ३० मिलीलीटर, रेवसाना, जब दैनिक रूप से १ व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, तो २ महीने तक चलता है। रेवसाना कमरे के तापमान (१५-२५ डिग्री सेल्सियस) पर रखा जाना चाहिए और सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से बचना चाहिए।





**Charisteristics:**

ReXana is a patented supplement from the Netherlands, It is a stabilized activated Nanoparticles with high absorption rate nutrients like Boron, Zinc and Vitamin C, all with mutual synergistic effects. ReXana is beneficial and provide support for Bones & Joints, Skin, Hair and Nails.

**Background Information:**

During the last few decades ongoing research demonstrated the important of health benefits .

The human body needs nutrients to build and maintain all kinds of connective tissue structures.

ReXana main ingredients are manufactured in the EU using sophisticated technology resulting in a high bioavailability rate.

**Beautifies Hair, Skin & Nails:**

ReXana's bioavailable nutrients improves the strength and elasticity of collagen by stimulating collagen production. Stronger collagen means healthier & more elastic skin with fewer and shallower wrinkles.

**Strengthens Bones & Collagen:**

ReXana plays an important role in bone calcification during the growth of new bone. Bone building cells (osteoblasts) start by constructing a connective tissue matrix. When this is done, the osteoblasts switch their function and begin to fill in this matrix with minerals.

ReXana is an essential partner of calcium for bones and antioxidants for supple and healthy arteries.

**विशेषताएं:**

रेक्साना नीदरलैंड का एक पेटेंट युक्त उत्पाद है, इसमें स्थिर एवं सक्रिय नैनोपार्टिकल्स है जिसमें उच्च अवशोषण दर युक्त बोरॉन, जिंक और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व हैं, सभी आपसी सहक्रियात्मक प्रभावों के साथ और प्रभावशाली बन जाता है। रेक्साना हड्डियों और जोड़ों, त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए फायदेमंद है।

**पृष्ठभूमि की जानकारी:**

पिछले कुछ दशकों के दौरान चल रहे शोध ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों को प्रदर्शित किया है।

मानव शरीर को सभी प्रकार के संयोजी ऊतक संरचनाओं को बनाने और बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।

रेक्साना उच्च जैव उपलब्धता वाले घटकों को यूरोपीय संघ में परिष्कृत तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया जाता है ।

बाल, त्वचा और नाखूनों को सुशोभित करता है :

रेक्साना के जैव उपलब्ध पोषक तत्व कोलेजन उत्पादन को बढ़ा करके कोलेजन की ताकत और लचीलेपन में सुधार करता है। मजबूत कोलेजन का मतलब कम झुर्रियों के साथ स्वस्थ और अधिक लोचदार त्वचा है। हड्डियों और कोलेजन को मजबूत करता है :

नई हड्डी के विकास के दौरान हड्डी कैल्सिफिकेशन में रेक्साना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं (ऑस्टियोब्लास्ट) एक संयोजी ऊतक मैट्रिक्स का निर्माण शुरू करती हैं। जब यह किया जाता है, तब ऑस्टियोब्लास्ट अपने कार्य को स्थिर करते हैं और खनिजों के साथ इस मैट्रिक्स को भरना शुरू करते हैं। रेक्साना हड्डियों कैल्शियम का और और स्वस्थ धमनियों के लिए एंटीऑक्सिडेंट्स का एक आवश्यक भागीदार है।



# Kalpamrit.in

## +91-9035308471



### Other Synergistic Nutrients:

- Boron affects bone metabolism, especially in conjunction with other minerals and vitamin D. Boron modulates sex hormone production in men and women, alter cognitive function, and provide analgesia for arthritis.
- Zinc is an essential trace element with substantial biological importance for humans. Zinc is responsible for a number of different functions in the human body and it helps stimulate the activity of > 100 different enzymes.
- Vitamin C has many functions like protection against immune system deficiencies, cardiovascular diseases, prenatal health problems, eye disease and skin wrinkling.

### Composition of ReXana:

#### ReXana contains the following ingredients:

- Vitamin C (as Ascorbic acid)
- Zinc chloride;
- Boric acid;
- Potassium chloride
- Polyethylene Glycol (PEG)

Other ingredients: Aqua purification and Macrogol,  
Vegetarian/vegan and gluten free.

अन्य सिनर्जिस्टिक पोषक तत्व :

बोरेन विशेष रूप से विटामिन डी एवं अन्य खनिजों और के साथ हड्डी के क्यापकय को प्रभावित करता है। बोरेन पुरुषों और महिलाओं में सेक्स हार्मोन उत्पादन को संशोधित करता है, संज्ञानात्मक कार्य को बदलता है, और गति्या के लिए एनाल्जेसिया प्रदान करता है।

जिंक मनुष्य के लिए एक आवश्यक ट्रेस तत्व है जिसका अत्यधिक जैविक महत्व है। जिंक मानव शरीर में कई विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है और यह सौ से ज्यादा विभिन्न एंजाइमों की गतिविधि को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

विटामिन सी में प्रतिरक्षा प्रणाली की कमियों, हृदय रोगों, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य समस्याओं, नेत्र रोग और त्वचा की झुर्रियों से सुरक्षा जैसे कई लाभ है।

रेवसाना की संरचना :

रेवसाना में निम्नलिखित सामग्रियां शामिल हैं :

विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में)

जिंक क्लोराइड

बोरेन

पोटेशियम क्लोराइड

पी जी

अन्य सामग्री : शोधित जल और मैक्रोगोल, शाकाहारी और ग्लूटेन रहित।



# Kalpamrit.in

+91-9035308471



## Who will benefit from ReXana?

- The use of ReXana ensures a sufficient ingestion of silicon, something that becomes more important during aging (starting as early as the age of 35).
- The body specifically needs silicon to help build and maintain the locomotor apparatus (bone system and joints). Of course this is important for both young and old, but even more urgent for old. Especially people who want to mobile when aging can use 'a helping hand'.
- In addition, silicon plays an important role in the growth and quality preservation of the skin, hair and nails. A healthy skin, beautiful hair and well-kept nails are important for everyone who wishes to maintain a good appearance.

This means that everybody will benefit from ReXana: growing young people, adults in their prime and last but not least the elderly among us, who in the autumn of their lives want to go the extra mile!

## For what purposes is ReXana used?

ReXana keeps your joints flexible and your bones strong. But also the connective tissue in the rest of the body, skin and hair, heart and blood vessels, will benefit from ReXana. In addition, ReXana supports the immune system.

रेवसाना से किसको फायदा होगा?

रेवसाना का उपयोग सिलिकॉन के पर्याप्त अंतर्ग्रहण को सुनिश्चित करता है, जो उम्र बढ़ने (3५ वर्ष की आयु में शुरू होता है) के दौरान और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

लोकोमोटर अंग(हड्डी प्रणाली और जोड़ों) को बनाने और बनाए रखने के लिए शरीर को विशेष रूप से सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। बेशक यह युवा और बुजुर्ग दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है, विशेषतः बुजुर्गों के लिए और भी जरूरी है। खासकर ऐसे लोग जो उम्र बढ़ने पर भी सक्षम रहना चाहते हैं, वे इसे 'हेल्पिंग हैंड' की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा, यह त्वचा, बाल और नाखूनों के विकास और गुणवत्ता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ त्वचा, सुंदर बाल और अच्छे नाखून उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अपनी एक गरिमा बनाए रखना चाहते हैं।

इसका मतलब है कि हर किसी को फायदा होगा रेवसाना से । युवा, वयस्क ही नहीं बल्कि बुजुर्ग जो अपने शेष जीवन में भी पुस्त-दुरुस्त और स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए अत्यन्त उपयोगी है।

रेवसाना का उपयोग किन् उद्देश्यों के लिए किया जाता है?

रेवसाना आपके जोड़ों को लचीला और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही शरीर, त्वचा और बाल, हृदय और रक्त वाहिकाओं के बाकी हिस्सों में संयोजी ऊतक भी रेवसाना से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा, रेवसाना प्रतिरक्षा प्रणाली का मजबूत करता है।



## What is the recommended dose and use of ReXana ?

Take 10 drops per day; mix into half glass of water or juice and drink promptly, preferably before breakfast.

### Caution:

DO NOT put into the eyes. Follow usage directions only. Do not take this product if you are pregnant or lactating. Keep out of the reach of children.

Consult a physician before starting any nutrition or exercise program or if you have, or have a family history of, including but not limited to, high blood pressure, heart problems, liver, kidney, thyroid, or psychiatric condition, diabetes, asthma, headaches, nervousness / anxiety, ulcers, or if you are using prescription drugs, or over the counter drug.

- Do not exceed recommended serving.
- Discontinue use if you experience an allergy from one of the ingredients.
- Do not use when you are pregnant or when you give breastfeeding.
- Keep out of reach of children.
- Do not use ReXana on open wounds or sexual organs and prevent eye contact!

रेवसाना की सही खुराक क्या है?

प्रति दिन आधा गिलास पानी या फलों के रस में १० बूँदें मिलाएं और नाश्ते से पहले सेवन करें।

सावधानियां :

आँखों के सम्पर्क में न लायें। केवल उपयोग के निर्देशों का पालन करें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस उत्पाद को न लें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। किसी भी पोषण या व्यायाम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले या यदि आपके या परिवार का उच्च रक्तचाप, हृदय की समस्याएं, यकृत, गुर्दे, थायरॉयड या मानसिक स्थिति, मधुमेह, अस्थमा, सिरदर्द, घबराहट, चिंता, अल्सर, या यदि आप प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का उपयोग कर रहे इस स्थिति में विकिक्सकीय परामर्श अवश्य लें।

अनुशांसित मात्रा से अधिक सेवन न करें।

यदि आप को रेवसाना के किसी एक सामग्री से एलर्जी है, तो उपयोग बंद कर दें।

जब आप गर्भवती हों या जब आप स्तनपान कराती हों तो उनका उपयोग न करें।

बच्चों के पहुँच से दूर रखें।

खुले घाव या यौन अंगों पर रेवसाना का प्रयोग न करें और आँखों के संपर्क से बचें!



# Kalpamrit.in

+91-9035308471



## When is it **unadvisable** to use ReXana ?

When in the past you proved to be hypersensitive to one or more of the ReXana ingredients, it is **unadvisable** to use ReXana

## **Suitable for vegetarians/vegans:**

No wheat, no gluten, no soybeans, no dairy, no egg, no fish/shellfish, no peanuts/tree nuts. Store at or below room temperature.

## **How long is it safe to keep ReXana ?**

The contents of the unopened box can be used until the indicated use-by date (see box or label). Once opened, the contents must be used within four months.

## **Quality:**

ReXana is prepared in accordance with the strictest quality requirements under HACCP standard.

## **The importance of the ingredients in ReXana:**

### **New revolutionary method:**

In the past few years, a new, revolutionary and patented method has been developed to produce stabilized molecules. This ReXana is well absorbed by the human body and biologically very active.

रेवसाना का उपयोग कब नहीं करना चाहिए?

यदि आप अतीत में एक या एक से अधिक रेवसाना अवयवों के प्रति संवेदनशील रहे हैं तो रेवसाना का उपयोग नहीं करना चाहिए।

शाकाहारीयों के लिए उपयुक्त :

इसमें गेहूं, ग्लूटेन, सोयाबीन, डेयरी उत्पाद, अंडा, मछली, शंख, मूंगफली, नट्स नहीं हैं। कमरे के तापमान पर या उससे नीचे रखें।

रेवसाना को रखना कब तक सुरक्षित है?

बंद बॉक्स की सामग्री का उपयोग एक्सपायरी डेट से पहले तक किया जा सकता है। एक बार खोलने के बाद, सामग्री को चार महीने के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए।

गुणवत्ता :

रेवसाना एवएसीसीपी मानक के तहत निर्धारित आवश्यक गुणवत्ताओं के अनुसार तैयार किया जाता है।

नई क्रांतिकारी विधि :

पिछले कुछ वर्षों में, स्थिर अणुओं का उत्पादन करने के लिए एक नई, क्रांतिकारी और पेटेंट विधि विकसित की गई है। यह रेवसाना मानव शरीर द्वारा अच्छी तरह से अवशोषित किया जाता है और जैविक रूप से बहुत सक्रिय है।



## Vitamin C (= ascorbic acid):

Vitamin C is a water-soluble vitamin that plays a role in maintaining the health of the body's connective tissue as well as acting as an antioxidant. The human body needs to ingest vitamin C, vitamin C foods, on a daily basis in order to maintain necessary supplies. The human body does not make vitamin C on its own, and it does not store it either, so it is important that the diet contains enough fruits and vegetables that contain vitamin C. The benefits of vitamin C may include protection against immune system deficiencies, cardiovascular disease, prenatal health problems, eye disease, and even skin wrinkling. A deficiency in vitamin C shows itself in several common ways in the body. While the signs and symptoms of Vitamin C deficiency are not too troublesome, the results of long-term low levels of vitamin C can be detrimental. A severe vitamin C deficiency will result in scurvy, a disease resulting from the breakdown of collagen. It affects bone and muscle strength and it suppresses the immune system. Scurvy is rarely seen today, because a very small amount of vitamin C is needed to prevent it.

Other signs of Vitamin C can be serious as well, like easy bruising, bleeding gums, gingivitis (inflammation of the gums), slow wound healing, dry and splitting hair, rough, dry, scaly skin, weakened immune system and swollen and painful joints. Health problems related to a vitamin C deficiency can get much worse over time and are related to serious health issues like high blood pressure, atherosclerosis and certain cancers.

विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड) :

विटामिन सी एक पानी में घुलनेवाली विटामिन है जो शरीर के संयोजी ऊतक को स्वस्थ बनाए रखने के साथ-साथ एंटीऑक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है। आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने के लिए मानव शरीर को प्रतिदिन पर विटामिन सी या विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ता है। मानव शरीर विटामिन सी को अपने आप नहीं बनाता है, और यह इसे स्टोर भी नहीं करता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आहार में पर्याप्त फल और सब्जियां शामिल हों जिनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी के कई लाभ हैं जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करना, हृदय रोग, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य समस्याएं, नेत्र रोग, और यहां तक कि त्वचा की झुर्रियां भी शामिल हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी कई साधारण लक्षणों से घटा चलता है। जबकि विटामिन सी की कमी के संकेत और लक्षण से ज्यादा परेशानी नहीं होती है, परन्तु विटामिन सी के लंबे समय तक कमी के परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। विटामिन सी की कमी से एक गंभीर परिणाम स्कर्वी हो सकता है, यह एक ऐसी बीमारी जो कोलेजन के टूटने के परिणामस्वरूप पैदा होती है। यह हड्डी और मांसपेशियों की शक्ति को प्रभावित करता है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। स्कर्वी आजकल शायद ही कभी देखा जाता है, क्योंकि इसे रोकने के लिए बहुत कम मात्रा में विटामिन सी की आवश्यकता होती है।

विटामिन सी के अन्य लक्षण गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य चोट लगना, मसूड़ों से सूजन बढ़ना, मसूड़े की सूजन (मसूड़ों की सूजन), धीमी गति से घाव भरना, शुष्क और दो मुँहें बाल, रूखी, सूखी, पपड़ीदार त्वचा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और सूजन और जोड़ों में दर्द। विटामिन सी की कमी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं समय के साथ बहुत बढ़ सकती हैं और उच्च रक्तचाप, एथेरोस्क्लेरोसिस और कैंसर जैसी कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।





# Kalpamrit.in

+91-9035308471



## Boron:

Boron is an almost essential mineral. Boron is essential for the growth and maintenance of bone and greatly improves wound healing. Boron beneficially impacts the body's use of oestrogen, testosterone, and vitamin D. It is also related to increase magnesium and calcium absorption. Boron is synergistic for a sufficient calcium level. It reduces the amount of calcium and magnesium lost through the urine important for the maintenance of strong bones and smooth joints. Boron is therefore important (next to calcium) for the prevention of bone depletion (osteoporosis).

In addition, boron could help prevent joint arthritis (arthrosis) and arthritis. Boron is also synergistic to vitamin D and some other minerals including silicon. Boron has beneficial effects on cognitive performance and short-term memory for elders. Moreover Boron has demonstrated preventive and therapeutic effects in a number of cancers, such as prostate, cervical, and lung cancers, and lymphoma. A boron deficiency causes calcium loss and loss of minerals in the bones.

Some symptoms:

- o fragile bones
- o low calcium in the blood
- o too much of calcium and magnesium in the urine

In addition, a severe boron deficiency would cause growth retardation (like Zinc), stress and transient complaints. In addition, it would strengthen a vitamin B deficiency.

बोरॉन :

बोरॉन एक आवश्यक खनिज है। बोरॉन हड्डी की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और घाव भरने में सहायक है। बोरॉन शरीर के एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी के उपयोग को लाभकारी रूप से प्रभावित करता है। यह मैग्नीशियम और कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने से भी संबंधित है। बोरॉन पर्याप्त कैल्शियम स्तर के लिए सहक्रियाशील है। यह मजबूत हड्डियों और जोड़ों की विकनाई के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है, मूत्र के माध्यम से निकल रहे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को कम करता है। अस्थि क्षय (ऑस्टियोपोरोसिस) की रोकथाम के लिए बोरॉन (कैल्शियम के साथ) महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, बोरॉन गठिया (आर्थराइटिस) को रोकने में मदद कर सकता है। बोरॉन विटामिन डी और सिलिकॉन सहित कुछ अन्य खनिजों के लिए भी सहक्रियाशील है। बोरॉन संज्ञानात्मक प्रदर्शन और बड़ों के लिए क्षणिक स्मृति में लाभकारी है। इसके अलावा बोरॉन प्रोस्टेट, ब्रीवा और पेफर्डों के कैंसर और लिम्फोमा जैसे कई प्रकार के कैंसर में लाभकारी और रिकवरेन्सरीय टाग का प्रदर्शन करता है। बोरॉन की कमी से हड्डियों में कैल्शियम और अन्य खनिजों की कमी होती है।

कुछ लक्षण :

नाजुक हड्डियां ।

रक्त में कम कैल्शियम की कमी होना।

मूत्र में कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा।

इसके अलावा, बोरॉन की कमी से शारीरिक विकास में कमी (जिंक की तरह), क्षणिक तनाव भी होते हैं।

यह विटामिन बी की कमी को पूरी करता है।





# Kalpamrit.in

+91-9035308471



## Zinc:

Zinc plays a role in many biological processes in the body. It is, inter alia, involved in the synthesis of DNA, RNA and hormones like testosterone. The mineral is also involved in the way vitamin A works and the metabolism of carbohydrates, alcohol and fatty acids. Zinc is involved in enzymes, which protects the body against free radicals.

Zinc is also important for the immune system. Symptoms of low zinc levels are: low resistance, hair loss, fatigue, white spots on the nails, irritability, skin problems and poor appetite. Zinc deficiency in young children causes growth retardation and impaired immune function.

Major sources of zinc include oysters, fish, (body) meat, vegetables, mushrooms, whole grain products, milk, egg yolk and yeast.

by Edith Carlisle and Klaus Schwarz in experiments with rats and chickens that were fed silicon-deficient diets. These experiments demonstrated that nutritional silicon deficiency causes skeletal deformities such as abnormal skull and long bone structure, as well as poorly-formed joints with decreased cartilage content.

Detailed biochemical analysis revealed that silicon is an essential nutrient for the structural integrity and development of connective tissue. Silicon's most popular use is as a nutritional supplement to strengthen not only the bones and connective tissues, but also hair, nails and skin.

जिंक :

जिंक शरीर में कई जैविक प्रक्रियाओं में एक अहम भूमिका निभाता है। यह डीएनए, आरएनए और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन के संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। यह स्वनिज विटामिन ए के काम करने के तरीके से कार्बोहाइड्रेट, शराब और फैटी एसिड के चयापचय में मदद करता है है। जिंक एंजाइमों में शामिल है, जो शरीर को मुक्त कणों से बचाता है।

इन्सूल सिस्टम के लिए जिंक भी महत्वपूर्ण है।

कम जिंक स्तर के लक्षण हैं :

कमजोर इन्सूल सिस्टम, बालों का झड़ना, थकान, नाखूनों पर सफेद धब्बे, चिड़चिड़ापन, त्वचा की समस्याएं और भ्रूष्व न लगना। छोटे बच्चों में जिंक की कमी से शारीरिक विकास में कमी होती है। जिंक के प्रमुख स्रोतों हैं सीप, मछली, मांस, सब्जियां, मशरूम, साबुत अनाज , दूध, अंडे की जर्दी और स्वमीर।

एडिथ कार्लिसल और क्लाउस श्वार्ज द्वारा तृहों और मुर्गियों के साथ प्रयोगों किया जिन्हें जिंक की कमी वाले आहार खिलाए गए थे। इन प्रयोगों से पता चला कि जिंक की कमी से हड्डियों की विकृति जैसे असामान्य खोपड़ी और लंबी हड्डी के साथ-साथ खराब कार्टिलेज के साथ जोड़ों का खराब गठन है। विस्तृत जैव रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि संयोजी ऊतक की संरचनात्मक अखंडता और विकास के लिए जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है। जिंक का सबसे लोकप्रिय उपयोग न केवल हड्डियों और संयोजी ऊतकों को मजबूत करने के लिए बल्कि एक पोषण पूरक के रूप में होता है जिसमें बाल, नाखून और त्वचा भी है।



# Kalpamrit.in

## +91-9035308471



### BENEFITS OF REXANA:

#### Joint:

ReXana was shown to be essential for the formation of articular cartilage. ReXana is a cross-linking agent in the glycosaminoglycan network which attracts and hold water in the joint.

#### Bone:

ReXana acts as a regulating factor in bone mineralization. ReXana stimulates DNA synthesis in osteoblast-like bone forming cells. ReXana inhibits osteoclast mediated bone reabsorption in vitro. The synthesis of collagen, the fibrous protein which is essential for the flexibility of the bone.

#### Heart:

ReXana makes the inner lining of arterial tissue (tunica intima) less permeable. In the case of a high cholesterol diet, supplementation reduces the occurrence of atherosclerotic lesions in blood vessels. The aorta and the carotid artery of healthy persons contain approximately 10 times more compared to atheromatous arteries.

#### Skin:

ReXana is important for optimal collagen synthesis. ReXana is crucial for activating the hydroxylation enzymes for crosslinking collagen, which improves the strength and elasticity of this fibrous protein. Better collagen means better skin, more elasticity and fewer wrinkles.

#### Hair:

The outer shaft of hair, that provides elasticity and strength, is rich in ReXana. Hair with higher nutrients content tends to fall out less and has more shine and lustre.

#### Nails:

ReXana is one of the predominant minerals in nails. A sign that Silicon may be systematically deficient is brittle and soft nails.

ReXana improves the nail quality which results in a better protection against nail infections.

#### Mucosa:

ReXana restores mucosa in the respiratory tract in case of dehydration

खेसाना के लाभ :

जोड़ों में :

खेसाना को आर्टिक्यूलर कार्टिलेज के निर्माण के लिए आवश्यक पाया गया था। खेसाना ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन नेटवर्क में एक क्रॉस-लिंकिंग एजेंट है जो जॉइंट्स में विकनार्ड को लाने के साथ साथ बनाए रखता है।

हड्डियों में :

खेसाना हड्डियों में खनिज विनियमन के कारक के रूप में कार्य करता है। खेसाना ऑस्टियोब्लास्ट जैसी हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं में रीएनए संश्लेषण को उत्तेजित करता है। कोलेजन का संश्लेषण करता है, यह खेदार प्रोटीन है जो हड्डी के लचीलेपन के लिए आवश्यक है।

दिल के लिए :

खेसाना उच्च कोलेस्ट्रॉल आहार के मामले में धमनी उत्तक (ट्यूबिका इंटिमा) के अंदरूनी स्तर को कम पारगम्य बनाता है। यह रक्त वाहिकाओं में एथेरोस्क्लेरोटिक घावों की घटना को कम करती है। स्वस्थ व्यक्तियों की महाधमनी और कैरोटिड धमनी में एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों की तुलना में लगभग १० गुना अधिक होता है।

त्वचा के लिए :

खेसाना अधिकतम कोलेजन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। खेसाना हाइड्रोक्सिलेशन एंजाइम को सक्रिय करने के साथ साथ क्रॉसलिंकिंग कोलेजन के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस खेदार प्रोटीन की ताकत और लोच में सुधार करता है। बेहतर कोलेजन का मतलब है बेहतर त्वचा, अधिक लोच और कम झुर्रियाँ।

बालों के लिए :

बालों का बाहरी शाफ्ट, जो लोच और शक्ति प्रदान करता है। उच्च पोषण वाले बाल कम झड़ते हैं और उनमें चमक अधिक होती है।

नाखूनों के लिए :

खेसाना नाखूनों के प्रमुख खनिजों में से एक है। अंगुर और नख नाखून सिलिकॉन की कमी के लक्षण हैं।

खेसाना नाखून की गुणवत्ता में सुधार करता है जिसके परिणामस्वरूप नाखूनों को संक्रमण से बेहतर सुरक्षा मिलती है।

श्लेष्मा झिल्ली :

खेसाना निर्जलीकरण की स्थिति में श्वसन पथ में श्लेष्मा झिल्ली को पुनर्स्थापित करता है।



# Kalpamrit.in

+91-9035308471



## Here are the information:

Increase Skin Elasticity: with stabilized Nutrients:

Skin elasticity depends on both the quantity of collagen and the ability of the collagen to form a 'tight mesh'. "stabilized ReXana" is clinically proven to increase elasticity 89%.

Your Skin's Vital 'Bounce Back' Factor:

You laugh. You frown. You raise your eyebrows in surprise. Yet your face doesn't crack. That's 'bounce back' (elasticity) at work.

The greater elasticity your skin exhibits, the more wrinkle-resistant and smoother it becomes. Skin elasticity depends on both the quantity of collagen and the ability of the collagen to form a

महत्वपूर्ण जानकारी :

त्वचा की लोच बढ़ाएँ स्थिर पोषक तत्वों के साथ:

त्वचा की लोच कोलेजन की मात्रा और कोलेजन की क्षमता पर निर्भर करती है, जिसे 'टाइट मेश' बनाता है। "स्थिर रेक्साना" प्रमाणिक रूप से लोच को ८९ प्रतिशत बढ़ाने में सक्षम है।

आपकी त्वचा की सौन्दर्य वर्धक :

जब आप हंसते हैं या आश्चर्य में अपनी भौहें उठाते हैं तो भी आप के चेहरे की त्वचा में गहरे नहीं बनते, यह 'वापसी' (लोच) है। आपकी त्वचा में जितनी अधिक लोच होती है, उतनी ही अधिक झुर्री-मुक्त और विकनी हो जाती है। त्वचा की लोच कोलेजन की मात्रा और कोलेजन की क्षमता दोनों पर निर्भर करती है।

WRINKLE-FORMING  
NON-ELASTIC SKIN

Low "Bounce Back" Factor



- Reduced collagen content
- Mainly single direction fibers
- Loose collagen mesh

WRINKLE-PREVENTING  
ELASTIC SKIN

High "Bounce Back" Factor



- Optimal collagen content
- Multi-directional fibers
- Tight collagen mesh



# Kalpamrit.in

+91-9035308471



## The Science of Promoting Resilient Youthful Skin:

The amount of collagen plays a vital part in skin elasticity. But equally important is the 'pattern' the collagen fibres form. In young skin, the pattern of collagen is 'multi-directional' (isotropic). This 'every-which-way' linking is precisely what helps to prevent skin wrinkling and creasing. Conversely, with aged skin, the collagen pattern tends to be more 'one-directional' (anisotropic). This 'single' direction pattern is what causes skin rigidity, and ultimately skin creasing. ReXana helps to create a rich multi-directional cross hatch pattern of collagen fibres + This tight knit collagen 'mesh' or matrix helps to prevent wrinkles from forming. It also prevents enlargement of the pores

## Creating Smooth, Flawless Skin:

Smooth skin contains millions of collagen fibres "pushing out" toward your skin's surface. This "pressure from within" prevents fine lines and wrinkles from forming. It gives your skin a beautiful and smooth appearance. Exactly what you had during your youth. Wrinkled skin, by contrast, contains fewer collagen fibres. The "gaps" between the fibres are where wrinkles form. Skin literally "caves in." This is what happens after the age of 21, when collagen begins to diminish by 1% every year.

## Creating Smooth, Flawless Skin – Reduce Wrinkles

Smooth Skin... Wrinkled Skin. What's the difference? Collagen.

त्वचा को लचीला और युवा बनाने का विज्ञान :

कोलेजन की मात्रा त्वचा की लोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है कोलेजन फाइबर का 'पैटर्न' रूप। युवा त्वचा में, कोलेजन का पैटर्न 'बहु-दिशात्मक' (आइसोट्रोपिक) होता है। यही हर दिशा में (लिंकिंग) त्वचा की झुर्रियों को रोकने और कम करने में मदद करता है। इसके विपरीत, वृद्ध त्वचा के साथ, कोलेजन पैटर्न अधिक 'एक-दिशात्मक' (अनिसोट्रोपिक) हो जाता है। यह 'एकल' दिशा पैटर्न है जो त्वचा की कठोरता का कारण बनता है, और अंततः त्वचा की झुर्रियां बढ़ती है। रेवसाना कोलेजन फाइबर के एक समृद्ध बहु-दिशात्मक क्रॉस हैच पैटर्न बनाने में मदद करता है साथ ही यह सघन कोलेजन बुनन या मैट्रिक्स झुर्रियों को बनने से रोकने में मदद करता है। यह त्वचा के छिद्रों को बड़ा होने से भी रोकता है।

रिक्नी, कोमल त्वचा बनाना :

रिक्नी त्वचा में लाखों कोलेजन फाइबर होते हैं जो आपकी त्वचा को सतह की ओर "धकेलते" हैं। यह "भीतर से दबाव" लाइनों और झुर्रियों को बनने से रोकता है। यह आपकी त्वचा को एक सुंदर और रिक्ना बना देता है। वास्तव में जैसी त्वचा अपनी युवावस्था के दौरान था। इसके विपरीत, झुर्रीदार त्वचा में कम कोलेजन फाइबर होते हैं। तंतुओं के बीच "अंतराल" यहाँ झुर्रियां होती हैं। यह २१ साल की उम्र के बाद ही होता है, जब कोलेजन हर साल १ प्रतिशत कम होने लगता है।

रिक्नी, कोमल त्वचा बनाना - झुर्रियों को कम करना

रिक्नी त्वचा और झुर्रीदार त्वचा में क्या फर्क है? कोलेजन।



**The Science of Generating Collagen:**

The secret to gaining that healthy youthful look is adding more collagen beneath the surface of your skin. How do you do that ? By turning on the collagen-generating cells inside your skin known as fibroblasts. You see, as you age, these fibroblasts start working slower and less efficiently. But Bioavailable ReXana re-activates these fibroblasts, safely and effectively.

Stabilized ReXana: Clinically Proven to Reduce Fine Lines and Wrinkles by 30%

So effectively, in fact, that the women taking sSA (like ReXana) in the clinical trials reduced wrinkles by 30.0% and increased skin elasticity 89% compared to the women that did not take sSA.

Keep in mind, you cannot ingest collagen, as in the pills or powders that contain cow collagen, and expect to gain collagen in your skin. Collagen is a protein, and when you ingest it, your body simply breaks it down and uses it as regular food. sSA, on the other hand, generates collagen right where you need it, in your skin. And it's your own collagen ('with your own DNA fingerprint!').

**कोलेजन उत्पन्न होने के पीछे का विज्ञान :**

उस स्वस्थ युवा रूप को प्राप्त करने का रहस्य है आपकी त्वचा की सतह के नीचे अधिक कोलेजन बढ़ाना। आप उसे कैसे करते हैं ? फाइब्रोब्लास्ट के रूप में जानी जाने वाली आपकी त्वचा के अंदर कोलेजन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को इस्तेमाल करके। जैसे आप देखते हैं आपकी उम्र बढ़ने के साथ, ये फाइब्रोब्लास्ट धीमी और कम कुशलता से कार्य करते हैं। लेकिन जैविक रूप से अत्यधिक स्वस्थाना इन फाइब्रोब्लास्ट्स को सुरक्षित और प्रभावी रूप से पुनः सक्रिय करता है।

**स्वस्थाना :**

विकिरणकीय जौं में साबित हुआ है की यह वारीक लाइनों और झुर्रियों को 30 प्रतिशत तक कम कर देता है।

विकिरणकीय परीक्षणों में पाया गया है कि स्वस्थाना लेने वाली महिलाओं में झुर्रियों 30.0 प्रतिशत कम हैं, नदी लेने वाली महिलाओं की तुलना में, और त्वचा की लोच 89 प्रतिशत ज्यादा है।

ध्यान रखें, आप कोलेजन को भोजन के साथ नहीं ले सकते हैं, जैसे कि गोदियां या पाउडर जिसमें मांस के गी कोलेजन होते हैं उन्हें आप भोजन में शामिल करे कोलेजन प्राप्त करने की लिए। कोलेजन एक प्रोटीन है, और जब आप इसे खाते हैं, तो आपका शरीर बस इसे तोड़ देता है और इसे नियमित भोजन के रूप में उपयोग करता है। दूसरी ओर, आपकी त्वचा में कोलेजन उत्पन्न करता है, जहाँ आपको इसकी आवश्यकता है। और यह आपका अपना कोलेजन है ('अपने डीएनए फिंगरप्रिंट के साथ!')



**BEFORE**

Diminished collagen leaves "gaps" in the fibers causing skin to "cave in" and form wrinkles.



**AFTER**

Optimal amounts of collagen push skin up and out creating smooth wrinkle-free skin.



# Kalpamrit.in

## +91-9035308471



### Thicker Hair / Stronger Hair:

Thicken and Strengthen All 90,000 - 140,000 Hairs on Your Head. The average woman has 100,000 hairs on her head. Blondes check in at 140,000, redheads claim 90,000 with brunettes falling somewhere around 110,000. You can't add more. But you can make each hair thicker. For the women participating in the sSA clinical trial, the average thickness of their hair increased by 12.8% with hair tensile strength increasing by 13,1%.

### Larger Roots Equal Thicker Hair:

Larger roots beneath your scalp create thicker hairs on top of your head.

What controls the root size? A group of specialized fibroblasts called dermal papilla. The larger the dermal papilla, the thicker the hair follicle, the thicker the hair shaft. Studies strongly suggest that sSA increases the volume of the dermal papilla. That creates a bigger shaft – the “bin” that holds the actual hair protein keratin. Next comes the process of “filling up” the follicle with a protein called keratin.

### घने और मजबूत बाल :

आपके ९०,००० - १४०,००० बालों को घना और मजबूत बनाता है। औसत महिला के सिर पर १००,००० बाल होते हैं, गोरे लोगों में १४०,०००, रेडहेड्स में ९०,०००, ब्लूनेट्स में लगभग ११०,००० बाल होते हैं। आप अधिक नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आप बालों को घना बना सकते हैं। विज्ञानिकल ट्रायल में भाग लेने वाली महिलाओं में, बालों की औसत मोटाई में १२.८ प्रतिशत की वृद्धि और मजबूती में १३.११ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

### बड़ी जड़ें मतलब घने बाल :

आपकी सिर में त्वचा के नीचे की बड़ी जड़ें आपके सिर के ऊपर घने बाल बनाती हैं। जड़ क्या आकार को नियंत्रित करता है? विशेष फाइब्रोब्लास्ट का एक समूह जिसे त्वचा की पैपिला कहा जाता है, यह पैपिला जितना बड़ा होता है, बालों का जड़ उतना ही मोटा होता है, बल भी उतना ही मोटा होता है। अध्ययन के नतीजे दिखाते हैं कि एसएसए त्वचा की पैपिला की मात्रा को बढ़ाता है। यह एक बड़ा शापट बनाता है - “बिन” जो बालों की प्रोटीन केराटिन को धारण करता है। इसके बाद केरेटिन नामक प्रोटीन द्वारा “बिन” को “भरने” की प्रक्रिया शुरू होती है।








**Increase Keratin Production:**

Keratin is the protein that makes up 97% of hair. That's why, along with collagen and elastin, it's known as one of your body's 3 beauty proteins. But Keratin production, like the production of the other two, begins to diminish starting at age 21. That's the reason why hair becomes thinner, weaker and duller. Keratin production depends on 1) efficiency of the cells that generate keratin fibres and 2) getting ample keratin-building nutrients to the hair shaft. sSA does both. How?

By augmenting the amount of collagen in the blood vessel walls, sSA increases the "elasticity" of capillaries. This ensures an abundant flow of growth-rich nutrients that optimize the keratinization process in your hair. New clinical evidence strongly supports the researchers current theory that the sSA increases the activity and efficiency of your keratin-producing cells. It all adds up to thicker, stronger, shinier hair – from the inside out! In fact, in clinical trials, the women taking sSA thickened their hair a full 12.8% over the women not taking sSA. You can too.

**केराटिन उत्पादन कैसे बढ़ाएँ :**

केराटिन वह प्रोटीन है जो 99% बालों को बनाता है। यही कारण है कि, कोलेजन और इलास्टिन के साथ, यह आपके शरीर के सौंदर्य बढ़ाने वाले तीन प्रोटीनों में से एक है। लेकिन केराटिन का उत्पादन, अन्य दो के उत्पादन की तरह, 21 साल की उम्र से कम होने लगता है। यही कारण है कि बाल पतले, कमजोर और सुस्त हो जाते हैं। केराटिन उत्पादन कोशिकाओं पर निर्भर करता है, एक केराटिन फाइबर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं की दक्षता और दो बालों के शाफ्ट का पर्याप्त केराटिन-निर्माण के लिए पोषक तत्व प्राप्त करना। एसएसए कैसे दोनों कार्य करता है? रक्त वाहिका की दीवारों में कोलेजन की मात्रा में वृद्धि करके, एसएसए कोशिकाओं की "लेव" को बढ़ाता है। यह विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित करता है जो आपके बालों में केराटिनाइजेशन प्रक्रिया को अनुकूलित करता है। नए शोध प्रमाणिक रूप से शोधकर्ताओं के वर्तमान सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि रेक्साना आपके केराटिन-उत्पादक कोशिकाओं की गतिविधि और दक्षता को बढ़ाता है। यह सब अंदर से बाहर तक, घने, मजबूत, चमकदार बालों को जोड़ता है! शोध से पता चला है, रेक्साना लेने वाली महिलाओं ने एसएसए नहीं लेने वाली महिलाओं के मुकाबले में बालों को 12.8 प्रतिशत मोटा बनाता है। यह आप भी कर सकते हैं।







# Kalpamrit.in

## +91-9035308471



Natural Collagen Boosters:

Collagen: Don't Eat It - Generate It!

Want to generate lost collagen? Know the facts. Collagen is a protein. When you ingest collagen (like with the pills and powders) your body breaks it down and simply uses it as food - just like it would if you ate chicken, fish, steak or any protein. To add collagen, your body must "generate" its own collagen. SSA is clinically proven to "turn on" the cells in your body that generate collagen

The Science of Collagen:

Don't Eat it - Generate it !

What Happens When You "Eat" Collagen?

You've probably seen the ads for collagen in the form of powders and pills. The story is that if you ingest collagen, usually from cows and pigs, you'll increase your own collagen. But the scientific fact is: Collagen is a protein. When you ingest collagen, your body breaks it down it and simply uses it as food - just like it would if you ate chicken, fish, steak or any protein. You see, inside your body, all proteins, like collagen, get broken down into amino acids. You have no control over how your body uses those amino acids. Your body cannot distinguish between the amino acids that came from last night's meal or from this morning's dose of collagen powder you may have tried. The key to adding collagen is to activate the cells in your bones that generate collagen.

प्राकृतिक कोलेजन बूस्टर :

कोलेजन :

इसे न खाएं - इसे उत्पन्न करें!

क्या आप कोलेजन उत्पन्न करना चाहते हैं? जानिए तथ्य। कोलेजन एक प्रोटीन है। जब आप कोलेजन (गोलियाँ और पाउडर के साथ) निगलते हैं, तो आपका शरीर इसे तोड़ देता है और बस भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करता है - ठीक वैसे ही जैसे आप चिकन, मछली, स्टेक या कोई प्रोटीन खाते हैं। कोलेजन बढ़ाने के लिए, आपके शरीर को स्वयं कोलेजन को "उत्पन्न" करना होगा। एसएसए प्रमाणिक रूप से आपके शरीर में उन कोशिकाओं को "चालू" करने के लिए जिम्मेदार होता है जो कोलेजन उत्पन्न करते हैं।

कोलेजन का विज्ञान :

इसे न खाएं - उत्पन्न करें!

क्या होता है जब आप "कोलेजन" खाते हैं?

आपने शायद कोलेजन के लिए विज्ञापनों में पाउडर और गोलियों के रूप में देखा है। कदाही यह है कि यदि आप आमतौर पर गायों और सूअरों से कोलेजन सेवन करते हैं, तो आप अपने स्वयं के कोलेजन को बढ़ा देंगे। लेकिन वैज्ञानिक तथ्य यह है : कोलेजन एक प्रोटीन है। जब आप कोलेजन को निगलते हैं, तो आपका शरीर इसे तोड़ देता है और बस भोजन के रूप में इसका उपयोग करता है - ठीक वैसे ही जैसे अगर आप चिकन, मछली, स्टेक या कोई प्रोटीन खाते हैं। आप देखते हैं, कोलेजन आपके शरीर के अंदर सभी प्रोटीन, अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। आपका इसमें कोई नियंत्रण नहीं है कि आपका शरीर उन अमीनो एसिड का उपयोग कैसे करता है। आपका शरीर अमीनो एसिड के बीच अंतर नहीं कर सकता है जो पिछली रात के भोजन से या आज सुबह कोलेजन पाउडर की खुराक से मिला है। कोलेजन को जोड़ने की कुंजी आपकी हड्डियों में कोशिकाओं को सक्रिय करना है जो कोलेजन उत्पन्न करते हैं।



## So How Do I Get My Collagen Back?

The cells in your body that generate collagen are called fibroblasts. But starting at age 18, these fibroblasts start working slower and less efficiently. By the age of 30, the signs of aging can become visible. sSA activates enzymes that “turn on” your body’s fibroblasts. The reality is, the collagen pills and powders have zero effect on these enzymes. That’s why sSA is clinically proven to decrease wrinkles by 30%, increase skin elasticity by 89%, strengthen and thicken hair by 13% and dramatically harden nails. What’s more, sSA is clinically proven safe.

Just remember, when it comes to your collagen, Don’t Eat it – Generate it!

sSA gives you the clinically proven, natural and safe way to generate your own collagen! You don’t need any more collagen capsules, tablets or injections!

Collagen and Bones:

The NIH Says YES!

The National Institutes of Health reports that your bones need both calcium and collagen. Collagen serves as the “binding sites” for calcium. Collagen gives your bones the pliability they need to withstand physical stress. But unlike calcium, you cannot “eat” collagen to gain the benefits. Collagen is a protein that your body simply breaks down and uses as food. The key is stimulating the osteoblasts that generate collagen. In clinical trials, sSA increased bone collagen formation 15% and increased BMD 2.00% at the critical hip region over and above what calcium and Vitamin D alone could do after 1 year.

मैं अपना कोलेजन कैसे प्राप्त करूँ?

आपके शरीर में कोलेजन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है। लेकिन १८ साल की उम्र से ये फाइब्रोब्लास्ट धीमी और कम कुशलता से काम करते हैं। ३० वर्ष की आयु तक, उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

एंजाइम को सक्रिय करता है जो आपके शरीर के फाइब्रोब्लास्ट को “चालू” करता है। वास्तविकता यह है कि इन एंजाइमों पर कोलेजन की गोदियां और पाउडर का प्रभाव शून्य होता है। यही कारण है कि रेवसाना विकिरणसक्रिय रूप से झुर्रियों को ३०% तक कम करने, त्वचा की लोच को ८९% तक बढ़ाने, बालों को १३ प्रतिशत तक घने, मजबूत बनाने और नाखूनों को मजबूत बनाना है। रेवसाना विकिरणसक्रिय रूप से सुरक्षित है। बस याद रखें, जब आपके कोलेजन की बात आती है, तो इसे न खाएं - इसे उत्पन्न करें!

रेवसाना शरीर में स्वयं के लिए कोलेजन उत्पन्न करने के लिए प्रमाणिक रूप से सिद्ध है, यह प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका देता है! आप को कोई भी कोलेजन कैप्सूल, गोदियां या इंजेक्शन की जरूरत नहीं है!

कोलेजन और हड्डियों:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कहते हैं हाँ!

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अपने रिपोर्ट कहते हैं कि आपकी हड्डियों को कैल्शियम और कोलेजन दोनों की आवश्यकता होती है। कोलेजन कैल्शियम के लिए “बंधन” के रूप में कार्य करता है। कोलेजन आपकी हड्डियों को शारीरिक तनाव झेलने के लिए आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। लेकिन कैल्शियम के विपरीत, आप लाभ प्राप्त करने के लिए कोलेजन को “खा” नहीं सकते। कोलेजन एक प्रोटीन है जो शरीर बस टूट जाता है और भोजन के रूप में उपयोग में आता है। एसएसए कोलेजन उत्पन्न करने वाले ओस्टियोब्लास्ट को उत्तेजित कर रही है। शोध परीक्षणों में, एसएसए ने हड्डी के कोलेजन गठन में १५ प्रतिशत की वृद्धि की और कूटने में बीएमडी २.०० प्रतिशत की वृद्धि की जिसे कैल्शियम और विटामिन डी अकेले १ साल में करते हैं।



# 1 Kalpamrit.in

+91-9035308471



Allergy Information: Free of gluten, wheat, corn protein, soy protein, yeast, dairy products, fish, shellfish, egg, artificial colors, or artificial sweeteners.

ReXana & side effects: No side effects are known from ReXana. ReXana is a very safe supplement when used in the advised dose. No interactions with other substances are known. Some women experience nausea in dose of more than 4 drops gastrointestinal tract. We do not recommend using ReXana during pregnancy or during breastfeeding although no side effect are known. Sometimes an innocent and short exacerbation of the complaints may occur in the beginning of ingestion of the drops. This indicates that you react intensively to ReXana. In this case you should reduce the recommended dose. If you experience any side effects, please report.

#### Disclaimer:

The products are not intended for diagnosis, treatment, cure or prevention of diseases. This product should not replace healthy eating or make up for unhealthy eating.

एलर्जी की जानकारी:

ग्लूटेन, गेहूं, मकई प्रोटीन, सोया प्रोटीन, स्वमीर, डेयरी उत्पाद, मछली, शंख, अंडा, कृत्रिम रंग या कृत्रिम स्वीटनर।

रेवसाना और साइड इफेक्ट्स : रेवसाना से कोई साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। सलाह अनुसार खुराक में उपयोग किया जाता है तो रेवसाना एक बहुत ही सुरक्षित पूरक है। अन्य पदार्थों के साथ कोई रिश्तण नहीं होता है। कुछ महिलाओं को ४ से अधिक बूंदों से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मितली का अनुभव हुआ। हम गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान के दौरान रेवसाना का उपयोग करने की सलाह नहीं देते हैं, हालांकि कोई भी दुष्प्रभाव ज्ञात नहीं है। इसे शुरू करने के बाद छोटी मोटी शिकायतें देखी जा सकती हैं। यह इंगित करता है कि रेवसाना आप में गहन प्रतिक्रिया शुरू करता है। इस मामले में आपको अनुशंसित खुराक को कम करना चाहिए। यदि आप किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो कृपया रिपोर्ट करें।

अस्तीकरण :

यह निदान, उपचार, इलाज या बीमारियों की रोकथाम के लिए नहीं है। इस उत्पाद पुष्टि वर्धक भोजन का विकल्प नहीं है और ना ही अस्वास्थ्यकर भोजन का पूरक।



Vegan certified



Halal certified



Produced under HACCP

If not  
now  
when?

Let's Start the  
Journey towards  
Financial FREEDOM!

Join Today:



**Kalpamrit.in**

**+91-9035308471**